

❖ Name : **Sri Vijay Kumar Mastakar**

❖ Designation (with department/unit/circle):

**Botanical Assistant, Hqrs., BSI**

Working place: **Central National Herbarium, Howrah**

❖ Date of Joining in BSI as a staff : **11<sup>th</sup> May, 2007**

Pres. Asstt. Gr. -1 (Pharmacognosy Unit, Hqrs., BSI).

❖ Total tenure in BSI : **09 Year, 09 months.**

❖ Field of work/specialisation: **Angiosperm Plant  
taxonomy/ Floristic and Herbarium maintenance.**

## Projects handled:

### a. Annual Action Plan : 2010–2014;

**Protected area; “Flora of Palkot Wildlife Sanctuary, Jharkhand”,** It is proposed for Ph.D. degree thesis to Barkatullah University, Bhopal (M.P.)

**Co-supervision : Dr. P. Lakshminarasimhan, Scientist ‘E’ & HoO., BSI, Western regional circle, Pune and Supervisor : Prof. (Dr.) Madhuri Modak, Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya (Barkatullah University), Bhopal (M.P.)**

# Analysis of the Flora of Palkot Wildlife Sanctuary, Jharkhand

## Statistical Analysis of the Flora

GROUPS	FAMILIES	GENERA	SPECIES	INFRA SPECIFIC TAXA	subsp .	var.
Dicotyledons	74	263	370	2		2
Monocotyledons	19	56	86	1		1
Total	93	319	456	3		3



**Flora of Palkot Wildlife Sanctuary, Jharkhand – 10 dominant families according to number of species:**

Sl. No.	Family	Number of Species (including infraspecific taxa)
1.	Fabaceae (incl. subfamily Faboideae, Ceasalpinoideae and Mimosoideae)	79
2.	Asteraceae	23
3.	Malvaceae	22
4.	Poaceae	18
5.	Cyperaceae	18
6.	Rubiaceae	16
7.	Lamiaceae	14
8.	Acanthaceae	14
9.	Convolvulaceae	14
10.	Apocynaceae	12

## Published research paper:

- 1) . **Mastakar, V. K.**, P. Lakshminarasimhan & M. Modak (2015). A report on the extended distribution of *Polycarpea aurea* (Caryophyllaceae), an endemic herbaceous species, to Chota Nagpur Plateau, Jharkhand, India. *Journal of Threatened Taxa*, 7(12): 7950-7952. (online)
- 2) . **Mastakar, V. K.**, P. Lakshminarasimhan & M. Modak (2015). *Crotalaria bifaria* L.f. (Leguminosae - Papilioideae): A New Distributional Record for Eastern India. *Indian J. Pl. Sciences*, Vol. 4 (3): 13-16. (Online)
- 3). **Mastakar, V.K.**, P. Lakshminarasimhan & M. Modak (2016). Conservation of Medicinal Plants Conventional and Modern Approaches (Ed. Chourasia, H.K.); *ETHNOMEDICINAL PLANTS OF PALKOT WILDLIFE SANCTUARY, JHARKHAND, INDIA*: 270–280. Omega Publication, New Delhi. (Book Chapter)

## Hindi article:


**Mastakar, V. K.**, P. Lakshminarasimhan & M. Modak (2016). Palkot vanyajiv-abhyaranya ki vanaspati vividhata- Eak parichaya. *Vanaspati Vaani*, Vol. 25. 35-38. BSI, Kolkata.


# Publication

An endemic herbaceous species, extended distribution to Chota Nagpur Plateau, Jharkhand : *Polycarpaea aurea* (Wight) Dunn (Caryophyllaceae)



*Crotalaria bifaria* L. f. (Leguminosae - Papilionoideae):  
A New Distributional Record for Eastern India.





# वनस्पति वाणी

सितम्बर 2016 • रजत जयंती अंक 25

वनस्पति वाणी अंक 25 : 35-36(2016)

## पालकोट बन्य-चौब अगाधारण्य (झारखंड) की वनस्पति विविधता— एक परिचय

प्रियंका कुमार मास्टरकर<sup>1</sup>, पी. लक्ष्मीसिंहदान<sup>2</sup> एवं मधुरी मोहन<sup>3</sup>

<sup>1</sup>भारतीय वनस्पति संशोधन, गोपालगढ़ा।

<sup>2</sup>भारतीय वनस्पति संशोधन, गुरुग्राम, हुगो।

<sup>3</sup>भारतीय विज्ञान नवीनियालय, गोपालगढ़ा।

झारखंड एक ऐसा राज्य है, जो शैर्प-जाति और उचित जनसंख्या ने नहीं है। यह 2000 में विद्यार चाचा के निकाल जैसे एक राज्य में गठित इसके दो भूमुख बैठे हैं जिसमें छोटा नामुक और साथात पश्चिमा शामिल हैं। यह बैठ प्रार्थन जाल में नुडा और उचित जनसंख्या के काबिये में था। इस राज्य में पालकोट बन्य-चौब अगाधारण्य 1990 में अधिसूचित किया गया, जो झारखंड राज्य के गुप्तला एवं सिंहड़ा जिले में 22°45' औं 23° 1' उत्तरी दशमलाख और 84°30' से 84°45' पूर्वी ज्योति ने बास्त- कलापिडा ज़ बैठ के डल्लान प्राविहीप के ऊर- नीतालिक बैठ में दौड़िया जाताहूड के छोटा नामुक पहाड़ के फैला में स्थित है। अगाधारण्य बैठ 760.942 वर्ग किमी<sup>2</sup> के एक नीतालिक बैठ ने फैला हुआ है। जिसमें से पहाड़ का क्षेत्र लगभग 182.83 वर्ग किलोमीटर (जानकारी वर्ष 1227 वर्ग किमी<sup>2</sup>, सक्रियत वर्ष 110.56 वर्ग किमी<sup>2</sup>) है।

पालकोट अगाधारण्य का तीन बैठों में भीतरीका किया गया है अर्थात्, कोर बैठ 24.26 वर्ग किमी<sup>2</sup>, बफ बैठ 157.57 वर्ग किमी<sup>2</sup> और पर्यटन बैठ 25.50 वर्ग किमी<sup>2</sup> (बफल बैठ के साथ उभयी जलस्थल)। यह जलाशय बैठ नीती भूमियों में बैठ हैं जो कि गुप्तला व निकाल में स्थित हैं पालकोट बैठीका (गुप्तला) एवं निकालों का चापा। इति रेज की तीन पार्कों में विविधत किया गया है, जो कि काला पालकोट बैठीका एवं कोडेंडों का हैं प्राचीन धरों का तुकड़ा हम जमुनाओं ने छोटा पाया है। निकाल हृष्टय जनिविलि बैठीका बैठ नीती जलस्थल की निवारिति करने और विकास के लायक जीव पूरा करना है। पालकोट बन्य-चौब अगाधारण्य में भूमुख रूप से उचित उत्कलन / कृषि और पशुपालन, उन्नान में विविधत के रूप में तरीं हुए देखा जाता है। पालकोट बन्य-चौब अगाधारण्य के जगतों के दो भूमुख प्रकार का सम्बन्ध करता है अर्थात् उत्तरी उचितीका





## **b. Annual action plan:**

Some allotted family for State Flora of Bihar & Jharkhand

- i). Annual Action Plan **2012 – 2013** allotted families for **State Flora of Bihar and Jharkhand, Vol. I;** *Pittosporaceae* and *Polygalaceae* (13 species), manuscript submitted.
- ii). Annual Action Plan **2013 – 2014** allotted families for **State Flora of Bihar and Jharkhand, Vol. I;** *Anacardiaceae* and *Moringaceae* (09 species), manuscript submitted.
- iii). Annual Action Plan **2016 – 2017** allotted families for **State Flora of Bihar and Jharkhand, Vol. II;** *Myrtaceae*, *Lecythidaceae* and *Melastomataceae* (ca. 39 species), manuscript finalise and submitted will be in April, 2017; one field tour conducted in Q2 (2015) to three Districts of Bihar state (Rohtas, Nalanda & Bhabhua (Kaimur, including Wildlife Sanctuary)) and 800 number of specimens collected and preserved and incorporated in CNH. (CAL).

# Special finding for State Flora of Bihar

- ✓ An endemic species *Alysicarpus roxburghianus* Thoth. & A.Pramanik



# Medicinal plant collection from Kaimur Wildlife Sanctuary, Bihar



***Drimia indica* (Roxb.) Jessop**

*Scilla indica* Roxb

Family: Asparagaceae



# Herbarium and other work

- ✓ Maintain the herbarium specimens viz. sorting damaged old specimens for repairing and remounting.
- ✓ Sorting the specimens for incorporation in hall 2, CNH.
- ✓ Arranging the herbarium specimens as per APG (Angiosperm Phylogeny Working Group) III Classification system according to linear sequence in student herbarium.
- ✓ Attended visitors and students coming from various University/ Colleges/ Institution.
- ✓ Other work done allotted by HoO, CNH and hall in charge hall no. 2.

**Thank you**